

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन कक्ष), सतपुडा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/निर्वर्तन/2034

भोपाल, दिनांक 03.06-2008

प्रति,

(नाम से) समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के समय उपस्थित रहने बाबत।

संदर्भ:- प्र.मु.व.स. कार्यालय एवं इस कार्यालय का क्रमांक

(1) क्रमांक/निर्वर्तन काष्ठ/1071 दिनांक 24-3-2005

(2) क्रमांक/उत्पादन काष्ठ/निर्वर्तन/1240 दिनांक 8-4-2005

(3) क्रमांक/निर्वर्तन काष्ठ/158/3011 दिनांक 1-9-2005

कृपया संदर्भित पत्रों का आवलोकन करे। जिनके द्वारा बार-बार निर्देश जारी किये गये हैं कि:-

- (1) नीलाम के समय वन संरक्षक स्वतः अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
- (2) काष्ठागारों में नीलाम के समय कथित अनियमितताओं को रोकने के लिये वीडियो रिकार्डिंग उन काष्ठागारों में कराई जाए जहाँ लगातार शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस संबंध में निर्णय संबंधित वन संरक्षक द्वारा लिया जायेगा। साथ ही साथ जहाँ नीलाम के बहिष्कार की संभवना है वहाँ वीडियो रिकार्डिंग आशयक रूप से कराई जाए।
- (3) नीलाम के समय सम्पूर्ण प्रक्रिया की आर्यों रिकार्डिंग की जाए और नीलाम के उन्त में इसे सील बन्द कर वन संरक्षक अपने पास सुरक्षित रखें।
- (4) बिडशीट में दूसरे उच्चतम बोली एवं बोलीदार का नाम भी लिखा जाए तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जाए।
- (5) किसी विशेष प्रयोजन से किन्हीं लाटों को आरक्षित किा जाना हो ता इसके लिये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से पूर्व अनुमति लेकर ही आरक्षित किया जाए।

कृपया उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्रों में दिये गये अन्य निर्देशों का विधिवत् पालन करें और वन संरक्षक नीलाम के समय स्वयं उपस्थित होना विशेष रूप से सुनिश्चित करें जिससे वर्तमान में प्राप्त हो रही शिकायतों से बचा जा सके।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)  
मध्यप्रदेश भोपाल